## केन्द्रीय विद्यालय आई.वी.आर.आई., इज्जतनगर, बरेली KENDRIYA VIDYALAYA IVRI, IZZATNAGAR, BAREILLY.

| कं      | ति विवासन संगठन 103  | 8   |  | ***************************************                    |                          | Keg. No.                           |
|---------|--|---|--|--|--------------------------|------------------------------------|
| क्रम सं | 0/SLNo. 100  | average on them one two   |  | mod visabilities   |                          | Public Sector Units to             |
|         | पंजीकरण के लिए कक्षा/Registration  | for class   |  |  |                          |                                    |
| 1.      | विद्यार्थी का पूरा नाम   | कि एक विकास   |  |  |                          | MEDIAN NE                          |
|         | Name of Child in full (in Capital lette  |   |  |  |                          | Setato dialy misterio              |
|         | लिंग/Sex: पुरुष / Male   | महिला / Female  | तृती   | य लिंग / Third Ge  | ender                    | Photograph of the                  |
|         | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | दिन/Day मास/  | Month वर्ष,  | /Year  | rdy the state of         | child<br>(Passport Size)           |
| 2.      | जन्मतिथि (अंकों में) Date of Birth   | 14-16-20  | and the state of   | or of the learning of                                      |                          | minus films in German              |
|         | शब्दों में/in words  |   |  |  |                          | Certified that                     |
|         | बच्चे की आयु 31 मार्च तक   |   |  | वर्ष ।   | मास                      | दिन                                |
|         | Age as on 31 March   |   |  | Year   | Month                    | Days                               |
|         |  |   | HRI  |  |                          |                                    |
| 3.      | बच्चे का रक्त समूह Blood Group o   | f the child (with RH factor   | or)  |  |                          |                                    |
| 4.      | बच्चे की सम्बन्धित श्रेणी/The categ  | ory to which child belon  | g :-   |  |                          |                                    |
|         |  |   | . आर्थिक रूप से का   | मजोर वर्ग बी.पी.ए  | ल. अन्य रूप से           | सक्षम इकलौती अन्य                  |
|         | Gen. Cat. SC   | ST OBC  | EWS  | BPL  | Diff. Ab                 | led SG Child                       |
| 4       |  | La Priso de Arres   | is let it been in  | og ima nig ia  | FIRST POPULATION         | TRANSPORTER DE                     |
| 5.      | यदि बच्चा अनुसचित जाति/अनुसूचित  | जनजाति/ओ बी.सी. (अन्य   | पिळडे वर्ग \/आधिक रू   | प में कमजोर/विकर   | <br>ബ്ഗ/കേതിരി കടഗ       | ्रोणी में सम्बन्धित है तो क्रपय    |
| in      | सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।   | વાવાતા ગાનાતા (ગન   | 1400 4-1)/0111441 €  | न स बानजार जिला  | Straft Sanctiviti an air | New Arthur Car Serie               |
|         | If the child belongs to SC/ST/OF   | BC/EWS/BPL/Disabled/  | S.G. Category, ther  | n, please attach   | relevant certificat      | e. Or grave and varue              |
| 6.      | माता-पिता का व्यौरा/ Details of Mo   | ther / Father   | माता/M   | other  | f                        | प्रता/Father                       |
| (i)     | नाम (स्पष्ट शब्दों में) / Name (in c   | apital letter)  | To LAND HIS GOLD   | System   Paggird   | S CH                     | Pilotto otra                       |
| (ii)    | राष्ट्रीयता / Nationality  |   |  |  |                          |                                    |
| (iii)   | व्यवसाय / Occupation   | RELABITATE !  |  |  | 2                        |                                    |
| (iv)    | कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष   |   | The state of the s | 100  |                          |                                    |
| (v):    | Name of office & full address w<br>पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण   |   |  |  |                          |                                    |
| ~,      | Full residential address with tel  |   | 12   |  |                          |                                    |
| (vi)    | विद्यालय से दूरी (किमी. में)/Distand   | ce from KV (in Km.)   |  | Production   |                          | Harris Harry                       |
| (vii)   | मूल वेतन/ Basic Pay  |   |  | 100  |                          | 100                                |
| (viii)  | स्थानान्तरणों की संख्या / No. of tran  | sfers   | Of the second  | a périeura   | Hely (Hely 1)            | CALL CONTRACTOR                    |
| (ix)    | माता-पिता की श्रेणी / Category of t  | he Parent#  |  |  | de bad sk                | Del bereit ero in bila             |
| (x)     | कर्मचारी कोड (यदि है तो) Employe   | ee Code (if any)  | The part of the state of the st |  |                          |                                    |
| Dis     | ालय से आवास की दूरी के लिए माता-पि<br>tance of Residence from Vidyala<br>पार्च तक पिछले सात वर्ष में स्थानान्तरणें<br>केन्द्रीय सरकार/Central Govt. 2. व<br>राज्य सरकार के स्वायत्त संस्थान/Author   | ya undertaking from par<br>i की संख्या/No. of transfe<br>हेन्द्रीय सरकार के स्वायत्त सं | ents is acceptable<br>irs during last 7 yea<br>स्थान/Autonomous t  | for distance. Pro<br>ars as on 31 Mar<br>modies of Central | oof of Residence<br>ch   | is compulsory.<br>रकार/State Govt. |
| में एतर | ्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त<br>fy that the above entries are true  | प्रविष्टियाँ मेरे संज्ञान में सत्य  | ₹1   |  | माता पिता के हर          | ताक्षर/Signature of Paren          |
|         | Pate   |   |  | पुरा नाम/  | Full Name                |                                    |
|         |  |   | 100114   | A SPANIE   |                          |                                    |

| 100   | 11.11.11   | THE THE  | VICE CERTIFICAT   | E (कन्द्राय सर  | 中区/Centra  | al Govt.)   | 370  |  |  |
|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|
| 9   | माणित किया जाता है कि श्रं   | ो/श्रोमती  |   |   |  | कार्यालय/मंत्रालय में नि  | नयमित कर्मचारि   |  |  |
| के रूप में का   | ार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय  | य रिजर्व पुलिस ब   | ल/सीमा सुरक्षा बल/एन.एस.जी  | /एस-पी-जी-/सी-आ   | .एस-एफ-/केन्द्री   | य सरकार/स्वायित संस   | था/सार्वजनिक क्षे  |  |  |
| के उपक्रम ज   | तो पूर्ण या आंशिक रूप से के  | न्द्र सरकार से वि  | त पोषित है, के नियमित कर्मचा  | री हैं तथा उनकी सेवा  | अस्थानान्तरणीय   | है/पूर्ण भारत में कहीं भी   | स्थानान्तरणीय है   |  |  |
| O C   |  |  |   |   |  |   |  |  |  |
| Public Se   |  |  | ee of Defence Service/C<br>tially financed by Central   |   |  |   |  |  |  |
| स्थान एवं 1   | दिनांक   | 77   | कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित   |   |  |   |  |  |  |
| Station wi  | ith date   | Tuesday  | Sign. & Nam   |   | 3  | of the head of off  |  |  |  |
|   | सेवा प्र   | माण-पत्र SI  | ERVICE CERTIFIC   | ATE (राज्य सर   | कार/State  | Govt.)  |  |  |  |
| У   | माणित किया जाता है कि  | श्री/श्रीमती   |   |   |  | कार्यालय/म  | त्रालय में नियमि   |  |  |
| कर्मचारी के   | रूप में कार्यरत हैं तथा उनक  | ी सेवा अस्थानांत   | रणीय है/पूर्ण राज्य में कहीं भी स   | थानान्तरणीय है।   |  |   |  |  |  |
| C   | ertified that Shri/Sm  | t  |   | is pe   | rmanently wo   | orking in the offic   | e / Ministry   |  |  |
|   | and his/her se   | rvices are no  | n-transferable/transfera  | ble anywhere in   | state.   |   |  |  |  |
|   | real land  |  | 1816  |   |  | START TE NA   |  |  |  |
| स्थान एवं 1   |  |  |   |   |  | स्ताक्षर (कार्यालय व  |  |  |  |
| Station wi  | ith date   |  | / Sign. & Nam   |   | STATE OF THE PARTY | of the head of offi   |  |  |  |
|   |  |  |   | maked blob like   | G. of Problem  |   |  |  |  |
|   | स्थानान्तरण सर   | ड्या प्रमाण-प  | त्र/CERTIFICATE   | OF NUMB   | ER OF T  | RANSFERS  |  |  |  |
| Ř   |  | (नाम)  | (रॅंक   | /पदनाम)   |  | (कार्याल  | य), एतद् मंत्राल   |  |  |
| टाग प्रमाणि   | ात करता/करती हैं पिछले   | ने सात साल ( ३   | 1 मार्च 2018 तक) में एक   | स्थान से दसरे स्था  | न पर मेरे  |   |  |  |  |
|   |  |  | ारण नीचे दिया गया है -  |   |  |   |  |  |  |
|   | The state of the s | St. Control of the Co | (rank / d   | esignation) of  |  | Inte  |  |  |  |
| certify tha   | at during the past 7 ve  | ars (upto 31.  | 03 2018) I have been tra  |   |  |   | ce), do hereb  |  |  |
|   |  |  |   | ansferred   |  | times (in figu  | ice), do herel<br>ures & in wor  |  |  |
| from one  | station to another, the  |  | nich are given as under:  | ansferred<br>-  |  | times (in figu  | ires & in wor  |  |  |
| from one  |  | e details of wi  |   | ansferred   |  | times (in figu  | ures & in wor  |  |  |
| from one<br>क्रम सo   | station to another, the<br>कार्यालय/यूनिट  | e details of wi<br>स्थान   | nich are given as under :<br>रैक/यदनाम  | ansferred<br>-<br>दिनाक/  | Date   | times (in figu  | ures & in wor<br>आदेश संख्या   |  |  |
| from one<br>क्रम सo   | station to another, the<br>कार्यालय/यूनिट  | e details of wi<br>स्थान   | nich are given as under :<br>रैक/यदनाम  | ansferred<br>-<br>दिनाक/  | Date   | times (in figu  | ures & in wor<br>आदेश संख्या   |  |  |
| 新年刊0<br>SI.No.  | station to another, the<br>कार्यालय/यूनिट  | e details of wi<br>स्थान   | nich are given as under :<br>रैक/यदनाम  | ansferred<br>-<br>दिनाक/  | Date   | times (in figu  | ures & in wor<br>आदेश संख्या   |  |  |
| from one<br>कम स0<br>SI.No.<br>1.   | station to another, the<br>कार्यालय/यूनिट  | e details of wi<br>स्थान   | nich are given as under :<br>रैक/यदनाम  | ansferred<br>-<br>दिनाक/  | Date<br>तक To  | टहरने को अवधि<br>Period of Stay   | ures & in wor<br>आदेश संख्या   |  |  |
| from one<br>新甲 刊0<br>SI.No.<br>1.<br>2.   | station to another, the<br>कार्यालय/यूनिट  | e details of wi<br>स्थान   | nich are given as under :<br>रैक/यदनाम  | ansferred<br>-<br>दिनाक/  | Date<br>तक To  | टहरने को अवधि<br>Period of Stay   | ures & in wor<br>आदेश संख्या   |  |  |
| from one<br>新甲 刊0<br>SI.No.<br>1.<br>2.<br>3.   | station to another, the<br>कार्यालय/यूनिट  | e details of wi<br>स्थान   | nich are given as under :<br>रैक/यदनाम  | ansferred<br>-<br>दिनाक/  | Date<br>तक To  | टहरने को अवधि  <br>Period of Stay   | ures & in wor<br>आदेश संख्या   |  |  |
| from one<br>表中 刊0<br>SI.No.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.                         | station to another, the<br>कायोलय/यूनिट<br>Office/Unit   | e details of wl<br>स्थान<br>Place  | nich are given as under :<br>रेक/पदनाम<br>Rank/Designation  | ansferred<br>दिनाक,<br>से From  | Date<br>तक To  | टहरने को अवधि<br>Period of Stay   | ares & in wor<br>आदेश संख्या<br>Order No.  |  |  |
| from one<br>कम स0<br>SI.No.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.                         | station to another, the<br>कायोलय/यूनिट<br>Office/Unit   | e details of wi<br>स्थान<br>Place  | nich are given as under :<br>रेक/पदनाम<br>Rank/Designation  | तिनाक<br>से From  | Date<br>तक To  | times (in figures) वहरने को अवधि Period of Stay   | ures & in wor<br>आदेश सख्या<br>Order No.   |  |  |
| from one<br>कम स0<br>SI.No.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.                         | station to another, the<br>कायोलय/यूनिट<br>Office/Unit   | e details of wi<br>स्थान<br>Place  | nich are given as under :<br>रिक/पदनाम<br>Rank/Designation<br>पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्र<br>my child will be disqualif                            | तिवाक<br>से From  | Date<br>तक To<br>वेश के लिए अ<br>n in Kendriya   | times (in figures) वहरने को अवधि Period of Stay   | ures & in wor<br>आदेश संख्या<br>Order No.  |  |  |
| from one<br>कम स0<br>SI.No.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>में जानता/ज          | station to another, the<br>कायोलय/यूनिट<br>Office/Unit   | e details of wi<br>स्थान<br>Place  | nich are given as under :<br>रिक/पदनाम<br>Rank/Designation<br>पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्र<br>my child will be disqualif<br>प्रतिहस्ताक्षर/Counters | वार्डानारक<br>दिनाक<br>से From  | Date<br>तक To<br>वेश के लिए अ<br>n in Kendriya<br>मात  | Joern की अवधि Period of Stay  योग्य हो जायेगा।।  Vidyalaya  | आदेश संख्या<br>Order No.   |  |  |
| from one<br>和 中 中<br>SI.No.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>并 जानता/<br>above me | station to another, the<br>कायोलय/यूनिट<br>Office/Unit   | e details of wi<br>स्थान<br>Place  | nich are given as under: रिक/पदनाम Rank/Designation  पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्र<br>my child will be disqualif<br>प्रतिहस्ताक्षर/Counters          | विद्यालय में प्रवे<br>विद्यालय में प्रवे<br>ied for admissio<br>ignature<br>(रॅंक/पदनाम)  | Date<br>तक To<br>वैश के लिए अ<br>n in Kendriya<br>मात  | Jest की अवधि Period of Stay  योग्य हो जायेगा।।  Vidyalaya   | आदेश संख्या<br>Order No.   |  |  |
| from one<br>和 中 中<br>SI.No.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>并 जानता/<br>above me | station to another, the<br>कायोलय/यूनिट<br>Office/Unit   | e details of will स्थान Place  Rd तथ्य गलत of the incorrect, of विवरण को व   | nich are given as under : रिक/पदनाम Rank/Designation  पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्र my child will be disqualif प्रतिहस्ताक्षर/Counters नाम)          | विद्यालय में प्रवेशिक for admissio ignature(रॅंक/पदनाम)   | Date<br>तक To<br>वैश के लिए अ<br>n in Kendriya<br>मात<br>ही पाया गया है  | Joern की अवधि   Period of Stay   Period of Stay   Vidyalaya,   Turn के हस्ताक्षर/                                     | ores & in wor<br>आदेश संख्या<br>Order No.<br>cnow that if the<br>Sign. of Pare<br>कार्यालय), एर                |  |  |
| from one कम स0 SI.No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. मैं जानता/उ                                     | station to another, the<br>कायोलय/यूनिट<br>Office/Unit<br>entioned facts are fou<br>गत करता हूँ कि उपरोक्त   | स्यान<br>Place   | nich are given as under: रिक/पदनाम Rank/Designation  पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्र<br>my child will be disqualif<br>प्रतिहस्ताक्षर/Counters          | विद्यालय में प्रवेशिव में प्रवेशिव में में प्रवेशिव में प्रवेशि | Date<br>तक To<br>तक To<br>n in Kendriya<br>मात<br>ही पाया गया है   | direction description to the control of Stay  Period of Stay  योग्य हो जायेगा।।  Vidyalaya.  Tuni के हस्ताक्षर/ऽ(unit | आदेश सख्या<br>Order No.<br>Cnow that if the<br>Sign. of Pare<br>कार्यालय), एर                                  |  |  |
| from one कम स0 SI.No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. मैं जानता/व                                     | station to another, the<br>कायोलय/यूनिट<br>Office/Unit<br>entioned facts are fou<br>गत करता हूँ कि उपरोक्त   | स्यान<br>Place   | पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्र<br>my child will be disqualif<br>प्रतिहस्ताक्षर/Counters<br>नाम)   | विद्यालय में प्रवेशिक में प्रवेशिक विद्यालय में प्रवेशिक में प्रवे | Date<br>तक To<br>तक To<br>an in Kendriya<br>मात<br>ही पाया गया है<br>of  | योग्य हो जायेगा।। Vidyalaya. I पिता के हस्ताक्षर/ऽ  | आदेश संख्या<br>Order No.<br>Crow that if the<br>Sign, of Pare<br>कार्यालय), एर<br>t / department<br>d correct. |  |  |
| from one कम स0 SI.No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. मैं जानता/व                                     | station to another, the<br>कायोलय/यूनिट<br>Office/Unit   | स्यान<br>Place   | nich are given as under: रिक/पदनाम Rank/Designation  पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्र my child will be disqualif प्रतिहस्ताक्षर/Counters नाम)           | विद्यालय में प्रकृति विद्यालय है व स्रकृति प्रवाम है व स्रकृत | Date<br>तक To<br>तक To<br>an in Kendriya<br>मात<br>ही पाया गया है<br>of<br>ords held in th   | direction description to the control of Stay  Period of Stay  योग्य हो जायेगा।।  Vidyalaya.  Tuni के हस्ताक्षर/ऽ(unit | order No.  Sign. of Pare कार्यालय), एत   |  |  |

टिप्पणी ; एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छ: मास होनी चाहिए। Minimum period of posting / staty at a place should be minimum six months.

दूरभाष : Telephone No. ....